



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17—दिसम्बर 23, 2005 (अग्रहायण 26, 1927)  
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 17—DECEMBER 23, 2005 (AGRAHAYANA 26, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 3 अक्टूबर 2005

सं. ए-32013/5/2004-प्रशा.-2--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसरण में, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में श्री जय प्रकाश, संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी को तीन महीने के लिए अर्थात् दिनांक 30.09.2005 से 29.12.2005 तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए, पद के प्रारंभिक सृजन में, वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- (ग्रेड-ए राजपत्रित) में वरिष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी के उन्नयित पद पर एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री जय प्रकाश की वरिष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी के रूप में नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और उन्हें ग्रेड में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा तथा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को ग्रेड में वरिष्ठता के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय  
न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

सं. 33/1/2005-प्रशा.(एफ.एस.)--राष्ट्रपति, निम्नलिखित को न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के कार्यालयों में पदोन्नति पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/- में प्रत्येक के सामने दी गई तिथि से सहायक सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	तैनाती का स्थान	नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री राजेन्द्र सिंह राणा	सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख, शिमला	31.10.2005

1	2	3	4
2.	श्री अभिमन्यु कुमार	स.प.प्र. प्रलेख, शिमला की चण्डीगढ़ शाखा, चण्डीगढ़	27.10.2005 (अपराह)

डॉ. एम. एस. राव  
निदेशक (एफ.एस.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल  
नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. पी.सात-4/2005-कार्मिक-3---सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु तक पहुंचने के कारण कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, के.रि.पु. बल, नोमच के श्री ओ. पी. प्रजापती (इरला संख्या-5140) ने प्रशासनिक अधिकारी का पदभार दिनांक 31.08.2005 (अपराह) को त्याग दिया।

जोगीन्दर सिंह  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-3)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. ए.छ: 01/2005-कार्मिक-1---भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अभ्यर्थियों को सहायक कमाण्डेन्ट के पद पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की नफरी में वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500/- के अन्तर्गत अस्थायी तौर पर, अगले आदेशों तक नियुक्त करने का आदेश दिया है :-

क्रम सं.	रोल नम्बर	नाम	चार्ज ग्रहण करने की तिथि
1.	98389	श्री खालिद अख्तर	09.11.2005 (अपराह)
2.	52334	श्री के. जी. बालाचन्दर	14.11.2005 (अपराह)
3.	6466	श्री मानदवकर अभिशेक प्रकाश	17.11.2005 (अपराह)
4.	54851	श्री हर्षवर्द्धन	17.11.2005 (अपराह)

2. इन्होंने के.रि.पु. बल अकादमी कादरपुर, गुड़गांव में प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट कर दी है तथा इन्होंने उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से अपने पद का चार्ज भी ग्रहण कर लिया है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. ए-12012/4/अ.स.नि.(बीज)/2005-प्रशा.-II---इस निदेशालय के श्री जी. एस. सिन्हा, तकनीकी सहायक (बीजलेख) को अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद पर रु. 7,500--12,000/- के

वेतनमान में 18 नवम्बर, 2005 से अगले आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

कमलेश डेका  
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

सं. ए-12012/8/स.नि.(बीज)/2004-प्रशा.-II---इस निदेशालय की श्रीमती सुदर्शन अग्रवाल, अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) को सहायक निदेशक (बीजलेख) के पद पर रु. 8,000--13,500/- के वेतनमान में 17 नवम्बर, 2005 से अगले आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

कमलेश डेका  
निदेशक, पुलिस दूरसंचार

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. ई-16015/(2)/2/2003/कार्मिक-1/37--राष्ट्रपति, श्री एस. सेनापति, निरीक्षक/कार्य को नियमित पदोन्नति पर के.औसुब में सहायक कमाण्डेन्ट/कार्य के पद पर रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। वह के.औसुब इकाई, ओएनजीसी नजीरा में तैनात हैं, जहां उन्होंने दिनांक 31 अक्टूबर 2005 के पूर्वाह्न से सहायक कमाण्डेन्ट/कार्य के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

ह/- अपठनीय  
महानिदेशक/के.औसुब

दिनांक 1 दिसम्बर 2005

सं. ई-16015/5/विविध/96/कार्मिक-1/3644--डॉ. (श्रीमती) अलका नन्दा दास, वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, के.औसुब को प्रतिनियुक्ति (राज्य सभा सचिवालय) से प्रत्यावर्तन होने पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से के.औसुब की नफरी में ले लिया गया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	के.औसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख/इकाई में पदभार ग्रहण करने की तिथि	टिप्पणी
01.	डा. (श्रीमती) अलका नन्दा दास	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट	राज्य सभा सचिवालय	04.11.2005 (पु.) 21.11.2005 (अप.)	12 दिन अर्जित अवकाश, दिनांक 07.11.2005 से 18.11.2005 तक व दिनांक 4, 5 व 6.11.2005 का प्रोफिक्स और दिनांक 19, 20.11.2005 साफिक्स सहित।

ह/- अपठनीय  
महानिदेशक/के.औसुब

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नाशिक रोड, दिनांक 2 दिसम्बर 2005

विषय : विभागीय सुरक्षा संगठन को (सरप्लस) घोषित करना पद समाप्त (ऑबोलिशन) करने संबंधी।

सं. 12226/स्थापना-18-1--श्री एस. डी. आबारे, निरीक्षक, वि.सु. सं. को सुरक्षा अधिकारी, वर्ग "ख" (राजपत्रित) के पद पर वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में दिनांक 1.04.2005 से 30.09.2005 तक तदर्थ आधार पर या संवर्ग को सरप्लस घोषित किए जाने तक, इसमें जो पहले हो, तक अधिसूचना संख्या 73/जी/स्थापना-18-1 दिनांक 18.04.2005 द्वारा नियुक्त किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने पत्र संख्या 3/31/03 सी वाई III दिनांक 9.09.2005 द्वारा विभागीय सुरक्षा संगठन को सरप्लस घोषित किया है और सुरक्षा अधिकारी के पद समाप्त घोषित किए हैं। अतः श्री एस. डी. आबारे को उनके मूलपद निरीक्षक (वि.सु.सं.) पद दिनांक 09.09.2005 से प्रत्यन्वर्तित किया जाता है।

प्रकाश नागयण  
महाप्रबंधक

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
महालेखाकार (लेखा एवं हक) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 18 नवम्बर 2005

महालेखाकार (लेखा एवं हक) ने श्री/श्रीमती 1. पी. वीरस्था 2. ए. शकुन्तला 3. जे. श्रीराम मूर्ति 4. आर. एम. जनार्दनन 5. बी. इन्दिरा देवी सहायक लेखा अधिकारियों को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान पर लेखा अधिकारी के रूप में 18.11.2005 पूर्वाह्न/अपराह्न के प्रभावी तिथि से पदोन्नति सहर्ष देते हैं।

यह पदोन्नति आदेश उनके वरिष्ठों के दावों पर, यदि कोई हो, बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले तथा आन्ध्र प्रदेश न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के परिणामों के अधीन होंगे।

राग प्रकाश राव  
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) "लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)" के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000/- के

वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

क्रम अधिकारी(यों) का सं. नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदोन्नति तिथि
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
01. एम. सी. लक्ष्मीनारायण	114/28.10.05	01.11.2005 (पूर्वाह्न)
02. जी. सलमान राजू	114/28.10.05	01.11.2005 (पूर्वाह्न)
03. एम. बालकृष्णय्या	114/28.10.05	01.11.2005 (पूर्वाह्न)
04. मेरिगा शास्त्री	114/28.10.05	01.11.2005 (पूर्वाह्न)

उपर्युक्त पदोन्नतियाँ उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय (केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लंबित याचिकाओं के परिणामों के बशर्ते आदेशित हैं [भारत सरकार का.ज्ञा.सं. एफ 7/1/80-स्था. (पी. 1) दिनांक 26.9.1981 तथा एफ 13/26/82-स्था. (पी. 1) दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा]।

सी. सैलजा  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित कल्याण अधिकारी/वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों/लेखा परीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वैच्छिक अधिवर्धिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :--

क्रम कर्मचारी का नाम सं.	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
01. एन.वी. चलपति राव	वरिष्ठ ले.प.अ.	31.10.2005
02. एन. श्रीराम मूर्ति	वरिष्ठ ले.प.अ.	31.10.2005
03. टी. सूर्यप्रकाश राव	वरिष्ठ ले.प.अ.	31.10.2005
04. सैयद अहमद-III	वरिष्ठ ले.प.अ.	31.10.2005
05. ए. सुब्रह्मण्य शास्त्री	वरिष्ठ ले.प.अ.	31.10.2005

सी. सैलजा  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

खान मंत्रालय  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. 3263/बी/ए-32014/2-ओ.एस./2005/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री डी.एन. झाम्ब, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण) को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अधिकारी सर्वेक्षक के रूप में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, अस्थाई स्थानापन्न रूप में 19.04.2005 (अपराह्न) से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्ति आगामी आदेशों तक अनुमोदित करते हैं।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सं. 3278/एसपी/ए-32013 (ए.ओ. ग्रेड-I)/2004/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II को प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I के पद पर इसी विभाग में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण की तिथि
01.	श्री के. सेतुमाधवन	29.08.2005 (अपराह्न)
02.	श्रीमती मिर्कल रिंजाह	30.08.2005 (पूर्वाह्न)

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 5 दिसम्बर 2005

सं. 3348/एसपी/ए-32013/1-एस.ओ./2005/19ए, भाग-II--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित भण्डार अधीक्षक (तकनीकी) (समूह- 'ख' अराजपत्रित) को भण्डार अधिकारी (समूह- 'ख' राजपत्रित) के पद पर इसी विभाग में तथा रुपए 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर, नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित तिथि से प्रभावित पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
01.	श्री देव शंकर चट्टोपाध्याय	30.08.2005 (पूर्वाह्न)

1	2	3
02.	श्री श्यामल कु. घोष	11.08.2005 (पूर्वाह्न)
03.	श्री बी. एल. देव	12.08.2005 (पूर्वाह्न)

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

कृषि मंत्रालय  
कृषि एवं सहकारिता विभाग  
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय  
फरीदाबाद, दिनांक 6 दिसम्बर 2005

सं. ए-19024/1/91-प्र-I--श्रीमति एम. एम. मोटघरे, मुख्य रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर को स्वेच्छ से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान कर दी गई है और तदनुसार उन्हें दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।

ए. के. चोपड़ा  
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. 22/3 (1)/2005-सीसीएस/38--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री आर. एन. पिल्लै, सहायक क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-10,500), आर. एम. पी./डी. पी. एस., मैसूर को दिनांक 14.10.2005 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक सी. आर. पी. यू., डी. पी. एस., कोलकाता में क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.  
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 23 नवम्बर 2005

सं. 6 (2419)/05 प्रशा./8621--राष्ट्रपति, श्री एम. वेणुगोपालन, मुख्य प्रशासन अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम को दिनांक 16 नवम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से उसी वेतनमान में परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में विशेष कार्य अधिकारी (ओ. एस. डी.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवनकुट्टी  
अवर सचिव

दिनांक 25 नवम्बर 2005

सं. 6 (946)/84/प्रशा./8683--अपर सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्रीमती भारती एस. पे, सहायक (वेतनमान

रु. 5,500-175-9,000/-) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक 21 नवम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवनकुट्टी  
अवर सचिव

सं. 6 (2420)/05 प्रशा./8687--राष्ट्रपति, श्री ए. के. विक्रमन नायर, प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-) निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुंबई को दिनांक 17 नवम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से उसी वेतनमान में परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवनकुट्टी  
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

सं. 16/2(1)/2004-एसयूएस/8835--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को इस विभाग के सामान्य सेवा संगठन, कलपाक्कम में रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में मूल वेतन रु. 8000/- + मूल वेतन के 25% की दर से एनपीए के प्रारंभिक वेतन पर उनके सामने दर्शायी तारीख से भावी आदेश होने तक अस्थायी आधार पर वैज्ञानिक अधिकारी/सी(चिकित्सा) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	तिथि से
1.	डा. कार्तिक राजेन्द्रन	19.07.2005
2.	डा. टी. जयचंद्र वाई.	17.08.2005
3.	डा. बीपलाब चैटर्जी	25.08.2005
4.	डा. (श्रीमती) ई. सेलवनायकी	21.10.2005

डी. सुरेन्द्रन  
अवर सचिव

(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400 094, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

सं. भापाबो/भर्ती/4(11)/2005/1251--राष्ट्रपति, श्री अलुरु लक्ष्मी नरसिंह राव, वैज्ञानिक अधिकारी/एच, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय) को दिनांक अगस्त 01, 2005 के पूर्वाह्न से रु. 22,400-525-24,500/- के वेतनमान में उसी कार्यालय में 'उत्कृष्ट वैज्ञानिक' के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर.के. सैनी  
मुख्य प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. ए-39012/1/2005-स्था-I--राष्ट्रपति जी नागर विमानन विभाग के श्री सलीम पाशा उडनयोग्यता अधिकारी का सरकारी सेवा से त्यागपत्र दिनांक 28.10.2005 (अपराह्न) से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

चानन राम  
उप निदेशक प्रशासन

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-66, दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. प्रशा.-I/1402/IX--राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सेवा के वरिष्ठ समयमान (वेतनमान 10,000-325-15,200/- रुपए) में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से तथा आगामी आदेशपर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वरिष्ठ समयमान में नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीमती सिमरजीत कौर	11.07.2005
2.	एस पी गंभीर	12.07.2005
3.	एस यू पुनेकर	12.07.2005
4.	टी एम जगताप	01.08.2005
5.	एस पी घोरपड़े	11.07.2005
6.	देवेन्द्र कुमार राय	25.07.2005
7.	अरविन्द खरे	25.07.2005
8.	आंदे पोशेट्टी	11.07.2005
9.	ग्यासुद्दीन अहमद	11.07.2005
10.	पंकज हजारिका	11.07.2005

कंवलदीप सिंह  
रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय  
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171 004, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. 5/1/2005-सी.पी.आई.--अक्तूबर, 2005 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) 6 अंक बढ़ कर 548 (पांच सौ अड़तालीस) अंक रहा।

आई.एस. नेगी  
उप निदेशक

## आयकर अपीलीय अधिकरण

मुंबई-400 020, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. एफ.48 एडी(एटी)2005--श्री डी. चक्रवर्ती, अधीक्षक को, तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में, दिनांक 09 नवम्बर, 2005 से 31 जनवरी, 2005 पूर्वाह्न तक की अवधि के लिए, अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठें, कोलकाता में, स्थानापन्न रूप में, सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

दिनांक 28 नवम्बर 2005

सं. एफ.48-एडी(एटी)/2005--श्री डी.जी. साहू, कार्यालय अधीक्षक, आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता पीठें, कोलकाता को, तदर्थ आधार पर, अस्थायी क्षमता में, दिनांक 28 नवम्बर, 2005 (पूर्वाह्न) से छः माह की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, रु. 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में, आयकर अपीलीय अधिकरण, चैम्बर्स पीठें, चैम्बर्स में, स्थानापन्न रूप में सहायक पंजीकार के पद पर नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त नियुक्ति तदर्थ आधार पर है और ये उन्हें उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ आधार पर उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं वरिष्ठता के अभिप्राय से या उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति की पात्रता के लिए नहीं गिनी जाएंगी।

विमल गांधी  
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पेट्रोइक टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 28 जुलाई 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-105757/जेसी/179--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पेट्रोइक टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त

कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रयूडेन्स ऑटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 1 सितम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-133808/961--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स प्रयूडेन्स ऑटोमोटिव प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स प्रयूडेन्स बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 1 सितम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-125992/969--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स प्रयूडेन्स बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तुला सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 7 सितम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-75527/1129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स तुला सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स खनौरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 27 सितम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-39395/2151--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स खनौरी चिट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मीडिया गल्टिज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-110398/2347--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मीडिया गल्टिज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी पी स्टेशनरी स्पेशियल्टीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-32316/2337--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डी पी स्टेशनरी स्पेशियल्टीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स के एस के एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-119483/3306--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स के एस के एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कार्बो सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 29 सितम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-32403/2342--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कार्बो सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स क्रिश्मा कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-029475--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स क्रिश्मा कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विपरार कान्डीनेन्टल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-16933--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स विपरार कान्डीनेन्टल प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मेगा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-33183/3352--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मेगा टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स गिल्सन्स टैक्सनिट इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-52429/3342--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स गिल्सन्स टैक्सनिट इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स विनमेडि इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 11 नवम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/जेएल/70760/3805--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स विनमेडि इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टाईमेक्स शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 20 अक्टूबर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-88774/3347--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स टाईमेक्स शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स वाटसन फोसेट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 नवम्बर 2005

सं. 560(5)/एस.ई.एस./2003/55-78563/3831--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स वाटसन फोसेट्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और



उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही कम्पनी का नाम काट दिया गया है।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ऑटो रिस्क मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-93212/4129--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ऑटो रिस्क मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फुल लाईट फिल्म कम्पनी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-91907/4144--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स फुल लाईट फिल्म कम्पनी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन आर एन टायर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-67668/4134--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एन आर एन टायर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स तराना काम प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-105724/4149--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स तराना काम प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सोलॉ फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-101914/4139--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सोलो फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स त्यागी सिक्योरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-22040/4154--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स त्यागी सिक्योरिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ट्रेक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-92099/4159--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ट्रेक इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सप्तगिरी मेडिसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-91884/4164--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सप्तगिरी मेडिसिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एन बी एच मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-116716/4169--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एन बी एच मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का

नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स भवानी फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-11248/4174--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स भवानी फाईनान्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स यूनिक होम मेन्टेनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-30426/4179--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स यूनिक होम मेन्टेनेन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रजत क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-51342/4184--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रजत क्राफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल

कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स श्रीनाथजी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-45513/4189--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स श्रीनाथजी होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मशाल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-013417/4204--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मशाल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कुंजा आलम कन्सल्टैन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-106402/4194--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कुंजा आलम कन्सल्टैन्सी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डाईना मोटिव मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-092957/4209--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डाईना मोटिव मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सुभा वेन्चर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-099428/4199--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सुभा वेन्चर्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बलबीर लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-24384/4215--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बलबीर लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पर्ल एडवर्टाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-57662/4219--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पर्ल एडवर्टाईजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एडीएसपी कन्सल्टेन्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-115570/4289--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एडीएसपी कन्सल्टेन्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एसीईएस इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-105533/4224--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स एसीईएस इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी. ऑटोवेल्ड प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-16798/4265--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बी. ऑटोवेल्ड प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इराद गेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 16 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-20334/4257--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स इराद गेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स टोटल एक्सेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-107958/4270--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स टोटल एक्सेज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स फूकलिन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-100453/4275--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स फूकलिन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए. पी. रानक ट्रावल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-55363/4290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ए. पी. रानक ट्रावल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कन्हैया प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-63843/4280--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स कन्हैया प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लेपटन्स फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-123187/4295--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स लेपटन्स फैशन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आईसीसीएस इन्फोकोम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-87599/4285--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आईसीसीएस इन्फोकोम प्राईवेट लिमिटेड का नाम

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.पी. क्रेडिट्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55-38252/4300--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स ए.पी. क्रेडिट्स एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लेपटन्स सिग्नेजस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/122796/4305--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स लेपटन्स सिग्नेजस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दिल्ली फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 17 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/29258/4310--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स दिल्ली फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स औम नम्मो फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110019, दिनांक 24 नवम्बर 2005

सं. 560(3)/एस.ई.एस./2005/55/82128/4316--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स औम नम्मो फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पी. काटकर  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आर डी एस के स्टील्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 28 नवम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13188/2683--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स आर डी एस के स्टील्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सूर्या कमल मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 28 नवम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13186/2687--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स सूर्या कमल मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अनन्या अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 28 नवम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13184/2691--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अनन्या अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मंजू कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 28 नवम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13182/2695--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स मंजू कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नन्दन कानन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/9230/2717--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नन्दन कानन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अरूशी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/2703--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स अरूशी मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रास केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 1 दिसम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/7889/2730--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स रास केपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स नैश कम्प्यूटर्स एण्ड कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 29 नवम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13575/2713--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स नैश कम्प्यूटर्स एण्ड कन्सल्टैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जयपुर रियल ऐस्टेट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 01 दिसम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/14223/2737--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जयपुर रियल ऐस्टेट प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स उग्र प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 01 दिसम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/14952/2738--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स उग्र प्रकाशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बंधिया फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 01 दिसम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/12857/2750--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स बंधिया फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोदार एस्टेट डेवलेपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 01 दिसम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/3369/2742--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पोदार एस्टेट डेवलेपमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जी बेक साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 01 दिसम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/17680/2754--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स जी बेक साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पोदार होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 01 दिसम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/3371/2746--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स पोदार होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स डी. आर. पैक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/11359/4116--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के उपरान्त मैसर्स डी. आर. पैक प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के. एल. कम्बोज  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल



## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 25th November 2005

No. F. 20/2005-SCA(I).—On his elevation as Additional Judge of the Madhya Pradesh High Court, Shri Brij Mohan Gupta has relinquished the charge of the post of Court Administrator-cum-Registrar General of the Supreme Court of India with effect from the forenoon of November 25, 2005.

A. I. CHEEMA  
Registrar (Admn.)

The 1st December 2005

No. F. 6/2005-SCA(I).—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri V. K. Jain, Registrar as a Court Administrator-cum-Registrar General in the Supreme Court of India, with effect from the forenoon of December 1, 2005, until further orders.

A. I. CHEEMA  
Registrar (Admn.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 3rd October 2005

No. A. 32013/5/2004-Admn.II—Pursuant to the approval of the Competent Authority, Shri Jai Prakash, Estate Manager & Meeting officer in the office of the UPSC is hereby appointed to the upgraded post of Sr. Estate Manager & Meeting Officer in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 (Gr. 'A', Gazetted) for a period of three months, on initial constitution basis w.e.f. 30.09.2005 to 29.12.2005, or until further orders whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Jai Prakash as Sr. EM&MO shall be on ad-hoc basis and shall not confer upon him any right for regular appointment in the grade and the service rendered on ad-hoc basis shall not count towards seniority in the grade.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE

New Delhi-110003, the 2nd December 2005

No. 33/1/2005-Adm (FS).—The President is pleased to appoint the following as Assistant Government Examiner of Questioned Documents in the offices of Government Examiner of Questioned Documents under the Directorate of Forensic Science on promotion with effect from the dates

indicated against each in an officiating capacity in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- :—

S.No	Name	Place of posting	Date of appointment
1.	Shri Rajender Singh Rana	G.E.Q.D., Shimla	31.10.2005
2.	Shri Abhimanyu Kumar	Chandigarh Unit of G.E.Q.D., Kolkata	27.10.2005(AN)

Dr. M. S. RAO.  
Director (FS)

## DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 30th November 2005

No. P. VII-4/2005-Pers-3—Consequent on his retirement from Government service on attaining the age of superannuation, Shri O.P. Prajapati (IRLA-5140) of O/o DIGP, CRPF, Neemuch, has relinquished charge of the post of Adm. officer in the afternoon of 31/08/2005.

JOGINDRA SINGH  
Addl. DIGP (Pers-III)

New Delhi-110003, the 30th November 2005

No. A-VI-1/2005-Pers-I—The President is pleased to appoint the following candidates as Assistant Commandants in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 in a temporary capacity until further orders against the overall strength of Central Reserve Police Force:—

Sl. No.	Roll	Name of Officer	Date of joining
1.	98389	Khalid Akhtar	09.11.2005 (AN)
2.	52334	K.G. Balachandar	14.11.2005 (AN)
3.	6466	Mandavkar Abhishek Prakash	17.11.2005 (AN)
4.	54851	Harsh Wardhan	17.11.2005 (AN)

2. They have reported to CRPF Academy, Kadarapur, Gurgaon for training and have taken over the charge of their post on the dates noted against their names.

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers-I)

DIRECTORATE OF COORDINATION  
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 29th November 2005

No. A. 12012/4/EAD(CY)/2005-Admn.II—Shri G.S. Bisht, Technical Suptd. (Cipher) of this Directorate has been promoted to the post of Extra Assistant Director (Cipher) in the pay scale of Rs. 7500-12000/- with effect from 18th November, 2005 Until further orders.

KAMALESH DEKA  
Director Police Telecommunications

No. A. 12012/8/AD(CY)/2004-Admn.II—Smt. Sudarshan Aggarwal, Extra Assistant Director (Cipher) of this Directorate has been promoted to the post of Assistant Director (Cipher) in the pay scale of Rs. 8000-13500/- with effect from 17th November, 2005 until further orders.

KAMALESH DEKA  
Director Police Telecommunications

#### DIRECTORATE GENERAL

#### CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-03, the 29th November 2005

No. E-16015/(2)/2/2003/Pers.I/37—The President is pleased to appoint Shri S. Senapati, Inspector/Exe to the rank of Assistant Commandant/Exe in CISF on promotion on regular basis in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/-. He is posted at CISF Unit ONGC Nazira, where he assumed the charge of Asstt. Commandant/Exe in the forenoon of 31st Oct. 2005 at CISF Unit ONGC Nazira.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

The 1st December 2005

No. E-16015/5/Misc/96/Pers.I/3644.—Consequent upon repatriation from deputation (Rajya Sabha Secretariat), Dr. (Smt.) Alaka Nanda Dash, Sr. Commandant, CISF has been taken on the strength of CISF with effect from the date as shown against her name:—

Sl. No.	Name of the Officer	Rank	Name of Department where officer was on deputation	Date of taken on strength in CISF/Date of Joining Unit	Remarks
1.	Dr. (Smt.) Alaka Nanda Dash	Sr. Comdt.	Rajya Sabha Secretariat	04.11.2005 (FN) 21.11.2005 (AN) CISF NZ HQrs., Saket, New Delhi	Availed 12 days EL w.e.f. 07.11.2005 to 18.11.05 with Prefix from 04.11.2005 to 06.11.2005 and suffix from 19.11.05 to 20.11.05

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

#### INDIA SECURITY PRESS

Nashik Road, the 2nd December 2005

Sub:—Declaration of DSO Surplus-Abolition of Post reg.

No. 12226/EST-18-1.—Shri S. D. Aware, Inspector, DSO, was appointed to the post of Security Officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- on ad-hoc basis from 01-04-2005 to 30-09-2005 or till the DSO

cadre is declared surplus, which is earlier, vide Notification No. 73/G/EST-18-1 dt. 08-04-2005.

The Ministry of Finance, vide letter No. 3/31/03-CY-III dt. 09-09-2005, declared Departmental Security Organisation surplus and 2 Posts of Security Officer have been abolished. In view of this, Shri S.D. Aware stands reverted to his original post of Inspector (DSO) with effect from 09-09-2005.

PRAKASH NARAYAN  
General Manager

#### INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

#### OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)

#### ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 18th November 2005

Accountant General (A&E), A.P., Hyderabad is pleased to promote the undermentioned Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000 with effect from the dates shown against their names:—

Sl. No.	Name	Date of assumption of charge as A.O.
1.	Shri P. Veeraiah	18.11.2005 A.N.
2.	Smt. A. Sakuntala	18.11.2005 A.N.
3.	Shri J. Sreerama Murthy	18.11.2005 A.N.
4.	Shri R.M. Janardhanan	18.11.2005 A.N.
5.	Smt. V. Indira Devi	18.11.2005 A.N.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of their seniors, if any, and also subject to the result of the writ petitions pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court/Central Administrative Tribunal.

M. PRAKASA RAO  
Dy. Accountant General (Administration)

#### OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL AUDIT) ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500004, the 2005

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officers (Civil) of this office to the cadre of "Audit Officers (Civil)" in the scale of Rs. 7500-250-12000 with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No./Date	Date of Assumption of Charge
1	2	3	4
	S/Shri		
1.	M.C. Laxminarayana	114/28.10.2005	01.11.2005(FN)
2.	G. Salmanraju	114/28.10.2005	01.11.2005(FN)

1	2	3	4
3.	M. Balakrishnaiah-II	114/28.10.2005	01.11.2005 (FN)
4.	Meriga Sastri	114/28.10.2005	01.11.2005 (FN)

The above promotions are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any, and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

They should exercise option for fixation of pay within one month from the date of their promotion in terms of Govt. of India, O.M. No. F.7/1/80-Estt. (P.I) dated 26.09.1981 and F. 13/26/82-Estt.(P.I) dated 08.02.1983.

C. SAILAJA  
Sr. DAG (Admn.)

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers/Audit Officers (Civil) with effect from the date noted against their names:—

Sl. No.	Name of the officer & Designation	Date of retirement
1.	S/Shri N. V. Chalapathi Rao SAO	31.10.2005
2.	N. Sree Rama Moorthy, SAO	—do—
3.	T. Surya Prakasa Rao, SAO	—do—
4.	Syed Ahmed-III, SAO	—do—
5.	A. Subramanya Sastry, SAO	—do—

C. SAILAJA  
Sr. DAG (Admn.)

#### GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-16, the 30th November 2005

No. 3263/B/A-32014(2-OS)/2005/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, G.S.I. is pleased to approve the appointment of Sri D.N. Jhamb, STA (Survey) in Geological Survey of India as Officer Surveyor on promotion in G.S.I. on pay according to Rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in a temporary officiating capacity with effect from 19.04.2005 (AN) until further orders.

S.K. SINHA  
Sr. Administrative Officer  
for Director General, GSI

No. 3318SP/A-32013(A.O.Gr. I)/2004/19A.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the President is pleased to appoint the following Administrative Officer Grade-II, Geological Survey of India to the post of Administrative Officer Grade- I on promotion on regular basis on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the same department with effect from the date shown against each, until further orders:—

Sl. No.	Name of the officer	Date of joining
1.	Shri K Sethumadhavan	29.08.2005 (AN)
2.	Smt. Miracle Rynjah	30.08.2005 (FN)

S. K. SINHA  
Senior Administrative Officer  
for Director General

The 5th December 2005

No. 3348SP/A-32013/I-SO./2005/19A, Vol. II—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee the Director General, Geological Survey of India is pleased to approve the appointment of the following Stores Superintendent (Tech) (Group 'B', Non-Gazetted) to the post of Stores Officer (Group-'B' Gazetted) on promotion in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the date as mentioned against each on regular basis until further orders.

Sl. No.	Name	Date of Assumption of charge
1.	Shri Deb Sankar Chattopadhyay	30.08.2005 (FN)
2.	Shri Shyamal Kr. Ghosh	11.08.2005 (FN)
3.	Shri B.L. Deb	12.08.2005 (FN)

S.K. SINHA  
Senior Admn. Officer  
for Director General

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

#### DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 06th December 2005

No. A. 19024/1/91-A.I—Mrs. M.M. Motghare, Chief Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Central Agmark Laboratory, Nagpur has been allowed to retire voluntarily and accordingly relieved of her duties from Government service with effect from 01st October, 2005 (Forenoon).

A.K. CHOPRA  
Under Secy.

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 25th November 2005

No. 22/3(1)/2005-CCS/38—The President is pleased to appoint Shri R.N. Pillai, Assistant Purchase Officer (Scale of pay Rs. 6,500—10,500), RMP/DPS, Mysore of this Department as Purchase Officer (Scale of pay Rs. 10,000—15,200) in CRPU, DPS, Kolkata with effect from the forenoon of 14.10.2005 until further orders.

SOBHA DEVI N.  
Under Secy.

Mumbai-400001, the 23rd November 2005

No. 6(2419)/05-Adm/8621—The President is pleased to appoint Shri M. Venugopalan, Chief Administrative Officer (scale of pay Rs. 12,000-375-16,500), Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam as Officer on Special Duty (OSD), in the same scale of pay in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of November 16, 2005.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

The 25th November 2005

No. 6(946)/84-Adm/8683—Additional Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy hereby appoints Smt. Bharati S. Pai, Assistant (Scale of pay Rs. 5,500-175-9,000), DAE, Mumbai as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of November 21, 2005, until further orders.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

No. 6(2420)/05-Adm/8687—The President is pleased to appoint Shri A.K. Vikraman Nair, Administrative Officer III (scale of pay Rs. 10,000-325-15,200), Directorate of Construction Services & Estate Management, Mumbai as Under Secretary in the same scale of pay in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of November 17, 2005.

P. P. MADHAVAN KUTTY  
Under Secy.

Mumbai-400001, the 1st December 2005

No. 16/2(1)/2004-SUS/8835—The President is pleased to appoint the following officers as Scientific Officer/C (Medical) in the General Services Organisation, Kalpakkam of this Department, on an initial pay of Rs. 8,000/- plus 25% NPA of basic pay in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/-

in a temporary capacity w.e.f. the date indicated against their names until further orders:—

Sl. No.	Name of the Candidate	Date of joining
1.	Dr. Karthik Rajendran	19.07.2005
2.	Dr. T Jayachandra	17.08.2005
3.	Dr. Biplab Chatterjee	25.08.2005
4.	Dr. (Mrs.) E. Selvanayagi	21.10.2005

D. SURENDRAN  
Under Secy.

## HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 1st December 2005

Ref: HWB/R/4(11)/2005/1251—President is pleased to appoint Shri Aluru Lakshmi Narasimha Rao, Scientific Officer/H, Heavy Water Board (Central Office) as 'Outstanding Scientist' in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- in the same office with effect from the forenoon of August 1, 2005.

R.K. SAINI  
Chief Administrative Officer

## DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 30th November 2005

No. A-39012/1/2005-E-I—The President is pleased to accept the resignation of Shri Saleem Pasha, Airworthiness Officer in the Civil Aviation Department from the Government Service with effect from 28.10.2005 (afternoon).

CHANAN RAM  
Dy. Director of Admn.

## DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

## OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-66, the 29th November 2005

No. AN-I/1402/IX—The President is pleased to appoint the undermentioned officers of the Indian Defence Accounts Service, to the Senior Time Scale (Scale of Pay of Rs. 10000-325-15200) of that Service, with effect from the dates indicated against their names and until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date from which appointed to Senior time Scale
1	2	3
	S/Shri	
1.	Smt. Simerjit Kaur	11.07.2005
2.	S.P. Gambhir	12.07.2005
3.	S.U. Punekar	12.07.2005

1	2	3
4.	T.M. Jagtap	01.08.2005
5.	S.P. Ghorpade	11.07.2005
6.	Devendra Kumar Rai	25.07.2005
7.	Arvind Khare	25.07.2005
8.	Ande Poshetty	11.07.2005
9.	Ghayas Uddin Ahmed	11.07.2005
10.	Pankaj Hazarika	11.07.2005

KANWALDEEP SINGH  
Asstt. CGDA (Admn)

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

##### LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 30th November 2005

No. 5/1/2005-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 1982=100 has increased by 6 points to stand at 548 (five hundred & fortyeight) for the month of October, 2005.

I. S. NEGI  
Dy. Director

#### INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400020, the 16th November 2005

No. F.48-Ad(AT)/2005:—Shri. D. Chakraborty, Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Kolkata Benches, Kolkata, is appointed to officiate as Assistant Registrar, on ad-hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Kolkata Benches, Kolkata in a temporary capacity with effect from the forenoon of 9th November, 2005 till 31st January, 2005 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad-hoc and will not bestow upon him, claim for regular appointment in the grade and service rendered by him on ad-hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

The 28th November 2005

No. F. 48-Ad(AT)/2005—Shri D. G. Sahoo, Office Superintendent, Income-tax Appellate Tribunal, Kolkata Benches, Kolkata is appointed to officiate as Assistant Registrar, on ad hoc basis in the Income-tax Appellate Tribunal, Chennai Benches, Chennai in a purely temporary capacity with effect from the forenoon of 28th November, 2005 for a period of six months in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

The above appointment is ad hoc and will not bestow upon him any claim for regular appointment in the grade and the service rendered by him on ad hoc basis will not count for the purpose of seniority in that grade or for eligibility for promotion to the next higher grade.

VIMAL GANDHI  
President

#### MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s Perostroika Technology Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 28th July 2005

No. SES-2003/560(5)/55/105757/SC/179—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Perostroika Technology Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prudence Auto Motive Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 1st September 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/133808/961—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prudence Auto Motive Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Prudence Build Con Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 01st September 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/125992/969—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Prudence Build Con Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tula Securities Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 07th September 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/75527/1129—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tula Securities Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Khanauri Chits Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 27th September 2005

No. SES-2005/560(3)/55-39935/1151—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Khanauri Chits Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dee Pee Stationery Specialities Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 29th September 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55-32316/2337—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dee Pee Stationery Specialities Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Carbo Sales Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 29th September 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/05-32403/2342—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Carbo Sales Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be

struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of

M/s. Media Glitz (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 29th September 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55-110398/2347—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Media Glitz (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of

M/s. KSK Exim Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 20th October 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55-119483/3306—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. KSK Exim Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of

M/s. Charisna Consultants Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 20th October 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55-29475/3332—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Charisna Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Viprar Continental Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 20th October 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/16933/3337—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Viprar Continental Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gillsons Tax Krit Industries Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 20th October 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/52429/3342—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Gillsons Tax Krit Industries Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Timex Share Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 20th October 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/88774/3347—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Timex Share Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mega Tours and Travels Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 20th October 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/33183/3352—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mega Tours and Travels Pvt. Ltd. unless cause is shown to the

contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Win-Medi Investments Ltd.

New Delhi-110019, the 11th November 2005

No. SES-2003/560(5)JL/70760/3805—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Win-Medi Investments Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Watsan Faucets (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 11th November 2005

No. SES-2003/560(5)/55/78563/JL/3831—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s Watsan Faucets (India) Pvt. Ltd. has this day been struck off from the Register and the said Company is dissolved from the date of this publication in Gazette Notification.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Auto Risk Management Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/93212/4129—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Auto Risk Management Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. N.R.M. Tyres Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/67668/4134—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. N.R.M. Tyres Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Solo Finlease Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/101914/4139—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Solo Finlease Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Full Flight Film Co. India Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/91907/4144—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Full Flight Film Co. India Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tarana Com. Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/105724/4149—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tarana Com. Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Tyagi Security Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/22040/4154—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Tyagi Security Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Trac Infotech Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/092099/4159—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Trac Infotech Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sapthagiri Medisystems Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/91884/4164—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Sapthagiri Medisystems Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. NBH Marketing Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/116716/4169—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. NBH



Marketing Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhawani Finance Co. Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/11248/4174—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bhawani Finance Co. Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Unique Home Maintenance Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/30426/4179—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Unique Home Maintenance Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rajat Crafts Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/51342/4184—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Rajat Crafts Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Srinathji Holdings Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/45513/4189—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Srinathji Holdings Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kunjalam Consultancy Services Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/106402/4194—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kunjalam Consultancy Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Subha Ventures (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/099428/4199—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Subha Ventures (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mashal Sales Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/013417/4204—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Mashal

Sales Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Dynamotive Motors Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/092957/4209—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dynamotive Motors Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Balbir Leasing Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/24384/4215—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Balbir Leasing Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Pearl Advertising Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/57662/4219—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Pearl Advertising Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ac E.S. Engineering Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/105533/4224—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Ac E.S. Engineering Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Irad Gage India Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/20334/4257—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Irad Gage India Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. V. Autoweld Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/16798/4265—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. V. Autoweld Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Total Access (India) Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/107958/4270—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three

months from the date hereof the name of the M/s. Total Access (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNUP. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Fueloan India Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/100453/4275—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Fueloan India Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kanhaiya Plantation Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/63843/4280—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Kanhaiya Plantation Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ICCS Infocom Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/87599/4285—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. ICCS Infocom Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. ADSP Consultants Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 16th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/115579/4289—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. ADSP Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A.P. Rounaq Travels Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/55363/4290—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. A.P. Rounaq Travels Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Leptons Fashions Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/123187/4295—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Leptons Fashions Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNU P. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. A. P. Credits and Leasing Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/38252/4300—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of

the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. A.P. Credits and Leasing Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNUP. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Leptons Signages Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/74994/4305—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Leptons Signages Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNUP. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Delhi Films Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/29258/4310—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Delhi Films Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNUP. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Om Namme Finvest Pvt. Ltd.

New Delhi-110019, the 17th November 2005

Notice u/s. 560(3)/SES/2005/55/82128/4316—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Om Namme Finvest Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

VISHNUP. KATKAR  
Asstt. Registrar of Companies  
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Rosk Steels (India) Pvt. Ltd.

Jaipur, the 28th November 2005

No. ROC/JPR/560/13188/2683—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Rosk Steels (India) Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Surya Kamal Metals Pvt. Ltd.

Jaipur, the 28th November 2005

No. ROC/JPR/560/013186/2687—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Surya Kamal Metals Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ananya Alloys Pvt. Ltd.

Jaipur, the 28th November 2005

No. ROC/JPR/560/13184/2691—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ananya Alloys Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Manju Castings Pvt. Ltd.

Jaipur, the 28th November 2005

No. ROC/JPR/560/13182/2695—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Manju Castings Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Arushi Marbles Pvt. Ltd.

Jaipur, the 29th November 2005

No. ROC/JPR/560/13156/2703—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Arushi Marbles Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nash Computers and Consultants Pvt. Ltd.

Jaipur, the 29th November 2005

No. ROC/JPR/560/13575/2713—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Nash Computers and Consultants Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Nandan Kanan Pvt. Ltd.

Jaipur, the 30th November 2005

No. ROC/JPR/560/9230/2717—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Nandan Kanan Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. R.A.S. Capital Services Pvt. Ltd.

Jaipur, the 1st December 2005

No. ROC/JPR/560/7889/2730—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. R.A.S. Capital Services Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jaipur Real Estate Pvt. Ltd.

Jaipur, the 1st December 2005

No. ROC/JPR/560/14952/2737—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Jaipur Real Estate Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ugra Prakashan Pvt. Ltd.

Jaipur, the 1st December 2005

No. ROC/JPR/560/14952/2738—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Ugra Prakashan Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Podar Estate Developments Pvt. Ltd.

Jaipur, the 1st December 2005

No. ROC/JPR/560/3369/2742—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Podar Estate Developments Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Podar Holdings Pvt. Ltd.

Jaipur, the 1st December 2005

No. ROC/JPR/560/3371/2746—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Podar Holdings Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Bhanthiya Finlease Pvt. Ltd.

Jaipur, the 1st December 2005

No. ROC/JPR/560/12857/2750—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of the Company M/s. Bhanthiya Finlease Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Xebec Software Pvt. Ltd.

Jaipur, the 2nd December 2005

No. ROC/JPR/560/17680/2754—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date

hereof the name of the Company M/s. Xebec Software Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register.

B. C. MEENA  
Registrar of Companies  
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. D.R. Pack Products Pvt. Ltd.

Kanpur, the 30th November 2005

No. 560(3)/SES-5605/11359/4116—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. D.R. Pack Products Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and said Company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ  
Registrar of Companies  
Uttar Pradesh & Uttaranchal